

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न सं. †1948  
सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**बिहार में पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाएं**

†1948. श्री चन्देश्वर प्रसाद:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत, अनुमोदित, मंजूर और निष्पादित परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) अब तक पूर्ण की गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ग) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या बिहार राज्य सरकार ने सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार राज्य में चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के तहत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत बिहार में स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई राशि और उनकी स्थिति सहित स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

(ड): पर्यटन मंत्रालय ने अब पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी तथा महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है। एसडी 2.0 के तहत गया और नालंदा का विकास हेतु चयन किया गया है जबकि बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के अंतर्गत विकास हेतु चिह्नित स्थल है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

बिहार में पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाएं के संबंध में दिनांक 19.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †1948 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

बिहार में स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना	परियोजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	स्थिति
1	स्वदेश दर्शन	वैशाली - आरा - मसाद - पटना - राजगीर - पावापुरी - चंपापुरी का विकास	2016-17	33.97	30.04	26.19	पूर्ण
2	स्वदेश दर्शन	कांवरिया रूट सुल्तानगंज - धर्मशाला - देवघर का विकास	2016-17	44.76	42.52	40.51	पूर्ण
3	स्वदेश दर्शन	बौद्ध परिपथ का विकास - बोधगया में सम्मेलन केंद्र का निर्माण	2016-17	95.18	93.22	93.22	पूर्ण
4	स्वदेश दर्शन	भित्तिहरवा - चंद्राहिया - तुरकौलिया का विकास	2017-18	44.27	39.96	35.72	पूर्ण
5	स्वदेश दर्शन	मंदार पहाड़ी और अंग प्रदेश का विकास	2017-18	44.55	40.85	39.34	पूर्ण
6	प्रशाद	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में बुनियादी सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27	2.91	2.91	पूर्ण
7	प्रशाद	पटना साहिब में विकास	2015-16	41.54	33.23	29.35	पूर्ण
8	केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 2 पर भागलपुर, बिहार सहित रिवर क्रूज के चढ़ने/उतरने के नौ मुख्य बिंदुओं पर घाटों का विकास	2019-20	28.03	7.00	उपलब्ध नहीं	कार्यान्वयन चल रहा है

\*\*\*\*\*